

गौरी सुत शंकर लाल | By Ganesh Pathak |

गौरी सुत शंकर लाल,
विनायक मेरी अरज सुनो,
बैठा भागवत महा पूराण,
विनायक मेरी अरज सुनो,
गौरी सुत शंकर लाल,
विनायक मेरी अरज सुनो ॥

सब देवन में आप बड़े हो,
तुमको प्रथम मनावे,
घर में गणपति सदा बिराजे,
कारज शुभ करावे,
संग रिद्धि सिद्धि,
संग रिद्धि सिद्धि आओ आज,
विनायक मेरी अरज सुनो,
गौरी सुत शंकर लाल,
विनायक मेरी अरज सुनो ॥

मेवा फल मोदक और लड्डू,
जिनको भोग लगवे,
सखी सहेली मिल करके,
सब मंगल आरती गावे,
देव मिलकर,
देव मिलकर चवर दुलावे,
विनायक मेरी अरज सुनो,
गौरी सुत शंकर लाल,
विनायक मेरी अरज सुनो ॥

ब्रह्मा विष्णु शंकर भी हैं,
जिनके गुण को गाते,
महिमा का वर्णन तो,
देवी देव मुनि ना पाते,
सब मिलकर,
सब मिलकर शीश झुकावे,
विनायक मेरी अरज सुनो,
गौरी सुत शंकर लाल,
विनायक मेरी अरज सुनो ॥

<https://bhaktivandana.com/lyrics/%e0%a4%97%e0%a5%8c%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%a4-%e0%a4%b6%e0%a4%82%e0%a4%95%e0%a4%b0-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%b2-by-ganesh-pathak/>